



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 177] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 6, 1982/आश्विन 14, 1904
No. 177] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 6, 1982/ASVINA 14, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 1982

सं० प्रतिप्रकाशनों/सां० सू० 74/82-प्रतिप्रकाशनों

सार्वजनिक सूचना

फा० सं० 600 / 2621- 2627, 2629 / 82 प्रतिप्रकाशनी.—
सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रकाशनी नियमावली, 1917
(भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित
प्रतिप्रकाशनी सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० प्र०) के नियम 4 के
अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रकाशनी/सां० सू०
50/82 दिनांक 1 जून, 1982 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्न-
लिखित संशोधन करती है:-

1. उपक्रमांक 2621, 2623, 2624, 2625, और 2626 के सामने
स्तम्भ 'माल का विवरण' में 'होजरी फौजरी' शब्दों के स्थान पर 'होजरी
फौजरी बुने हुए फौजरी' शब्द रखे जाएंगे।

2. उपक्रमांक 2622 के सामने स्तम्भ 'माल का विवरण' में आने
वाले 'और होजरी' शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. उपक्रमांक 2627 और 2629 तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों
के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

| उपक्र- मांक | माल का विवरण | प्रतिप्रकाशनों की दर | विनिर्धान सोमा शुल्क | कें० शु० |
|----------------|--|---|----------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2627 | फौजरी और होजरी फौजरी बुने हुए फौजरी जो मानव-निर्मित मिश्रित फिलामेंट घागे से तथा/अथवा सिलिस्टैक्सॉन घागों से अंजना निर्मित हो और उपक्रमांक 2502 के अधीन विनिर्दिष्ट कते हुए घागों से अंजना निर्मित हो। | इस अनुसूची की क्रम सं० 25 और/अथवा 26 के अधीन यथा निर्दिष्ट तन्तु अन्तर्भूत और/अथवा घागा अन्त- वस्तु (जिनमें नायलॉन, (पोलिएमाईड) फिला- मेंट घागा अन्तर्भूत शामिल नहीं है) की उचित दर जमा | | |
| | | इस अनुसूची की उपक्रमांक 2505 I | | |

1 2 3 4

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 6th October, 1982

No. DRAWBACK/PN-74/82-DBK

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/2621-2627, 2629/82-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-50/82, dated the 1st June, 1982:—

1. In the column 'Description of goods' against Sub. Sl. Nos. 2621, 2623, 2624, 2625 and 2626 for the words "hosiery fabrics", the words "hosiery fabrics/knitted fabrics" shall be substituted.

2. In the column 'Description of goods' against Sub. Sl. No. 2622 the words "and hosiery" shall be deleted.

3. For sub-sl. No. 2627 and 2629 and the entries relating thereto to the following shall be substituted, namely:—

| Sub Sl.No. | Description of goods | Rate of drawback | Allocation Cus. C.Ex. |
|------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2627 | Fabrics and hosiery fabrics/knitted fabrics made partly out of synthetic man-made filament yarn and/or synthetic-textured yarns and partly out of spun yarns specified under sub-sl. No. 2502. | Appropriate rate of fibre content and/or yarn content (excluding nylon (polyamide) filament yarn content) as specified under Sub-sl. No. of Sl. No. 25 and/or 26 of this Schedule. | PLUS Rs. 6.25 (Rupees All C.Ex. six and paise twenty five only) per kg. of nylon (polyamide) yarn content where the yarn is textured yarn. |
| 2629 | Fabrics and hosiery fabrics/knitted fabrics made out of textile materials, not elsewhere specified. | Appropriate rate of fibre content and/or yarn content (excluding nylon (polyamide) filament yarn content) as the case may be as specified under Serial No. 25 and/or 26 of the | |

2629 ग्रन्थाल धननिदिष्ट
टेक्स्टाइल सामग्री से
निर्मित फैब्रिक और
होजरी फैब्रिक/बुने
हुए फैब्रिक

के अधीन विनिदिष्ट
नायलॉन (पॉलिएमाइड)
फिलामेंट धागा अन्त-
र्वस्तु की उचित दर
का 106 प्रतिशत
(केवल एक सौ छ
प्रतिशत)

जमा

जहाँ धागा टेक्स्टाइल सम्पूर्ण केन्द्रीय
धागा हो वहाँ नाय- उत्पादन शुल्क
लॉन (पॉलिएमाइड)
धागा अन्तर्वस्तु के
प्रति कि० ग्रा० पर
6.25 रु० (केवल
छ रुपये पञ्चमीस
पैसे)

इस अनुसूची की कम
सं० 25 और/अथवा
26 के अधीन विनि-
दिष्ट यथास्थिति
तन्तु अन्तर्वस्तु और
अथवा धागा अन्तर्वस्तु
(जिनमें नायलॉन (पॉलि-
एमाइड) फिलामेंट
धागा अन्तर्वस्तु
सामिल नहीं है) की
उचित दर

जमा

इस अनुसूची की
उपक्रमांक 2505 I
के अधीन विनिदिष्ट
नायलॉन (पॉलिएमाइड)
धागा अन्तर्वस्तु की
उचित दर का 106
प्रतिशत (एक सौ छ
प्रतिशत)।

जमा

जहाँ धागा टेक्स्टाइल
धागा है, वहाँ नायलॉन सम्पूर्ण सीमाशुल्क
(पॉलिएमाइड) धागा
अन्तर्वस्तु के प्रति
कि० ग्रा० पर 6.25
रु० (केवल छ
रुपये पञ्चमीस पैसे)

जमा

जब निर्यात उत्पाद सम्पूर्ण सीमाशुल्क
का धागा रंगा गया
हो/ नग रंगे गये हों/
उम पर छापाई की
गई हो तो फैब्रिक
अन्तर्वस्तु के प्रति
कि० ग्रा० पर 0.80
रु० (केवल अस्मी
पैसे)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--|-----------|
| | | Schedule, subject to the conditions specified therein. | |
| | | PLUS | |
| | | 106% (One hundred and six per cent only) of the appropriate rate of nylon (polyamide) yarn content specified under Serial No. 2505 I of this Schedule. | |
| | | PLUS | |
| | | 6.25 (Rupees six and paise twenty five only) per kg. of nylon (polyamide) yarn content where yarn is textured yarn. | All C.Ex. |
| | | PLUS | |
| | | 0.80 (Paise eighty only) per kg. of fabric content when the export product is yarn dyed/piece dyed/printed in the body. | All C.Ex. |

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1982.

सं० प्रतिअदायगी 2/सां० सू० 75/82-प्रतिअदायगी

सार्वजनिक सूचना

का० सं० 600/2619/82 प्रतिअदायगी:—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति अदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, प्रसाधरण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित) प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/ (70 प्र० अ०) के नियम 4 के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सां० सू० 50, दिनांक 1 जून, 1982 में प्रकाशित मारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

उपक्रमांक 2619 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

| उपक्रमांक | माल का विवरण | प्रतिअदायगी की दर | विनिर्धान |
|-----------|--|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2619 | अन्धधुआ अधिविनिर्धान सभी ऊनी कृषिक | | |
| (क) | किसी भी सूत्राक के ऊनी बस्टेड धागे के ताने और बाने में निमित्त कृषिक | ऊन अन्तर्वस्तु के लिए यथास्थिति उपक्रमांक 2612-2615 के सामने विनिर्दिष्ट उचित दर से प्रति अदायगी | |
| (ख) | किसी भी सूत्राक के ऊनी बस्टेड धागे के ताने/बाने में तथा ऊनी पदार्थ के काने गये धागे से ताने/बाने में निमित्त कृषिक | ऊन अन्तर्वस्तु के लिए यथास्थिति उपक्रमांक 2612-2615 के सामने यथाविनिर्दिष्ट उचित दर से प्रतिअदायगी। | |

स्पष्टीकरण 3- इस अनुसूची के उपक्रमांक 2615 के अन्तर्गत उल्लिखित अर्थात् इस उपक्रमांक पर भी लागू होगी।

(ग) ऊनी पदार्थ में दर की घोषणा बाव काने गये धागे से ही में की जानी है।
निमित्त कृषिक

यह सार्वजनिक सूचना 1 जून, 1982 को लागू हुई समझी जाएगी।

NO. DRAWBACK/PN-75/82-DBK

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/2619/82-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-50 dated 1st June, 1982:—

For Sub-serial No. 2619 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

| Sub. Sl.No. | Description of goods | Rate of drawback | Allocation Cus. C.Ex. |
|-------------|--|--|-----------------------|
| 2619 | All wool fabrics not otherwise specified : (a) fabrics manufactured from woolen worsted yarn of any counts in warp and weft. (b) fabrics manufactured from woolen worsted yarn of any count in warp/weft and yarn spun on woollen system in weft/warp. | Drawback for wool content at the appropriate rate specified against Sub-Sl. No. 2612-2615 as the case may be. Drawback for wool content in the worsted woollen yarn at the appropriate rate as specified against Sub Sl. No. 2612-2615, as the case may be. | |

Explanation:— Condition appearing under Sub-Sl. No. 2615 of the Schedule shall also apply to this Sub-Serial Number.

(c) fabrics manufactured wholly from woolen yarn, spun on woolen system. Rate to be announced later.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1982.

सं० प्रतिअदायगी/सां० सू० 76/82

सार्वजनिक सूचना

का० सं० 600/2729/82-प्र० अ०:—सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 के नियम 4 (दिनांक 25 अगस्त, 1971 को भारत के राजपत्र-प्रसाधरण में प्रकाशित) अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 1982 को सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सां० सू० 37 में प्रकाशित मारणी में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

"माल का विवरण" के कालम में उपक्रमांक 2722 के सामने "बिस्कोस फिलामेंट धागा" शब्दों के स्थान पर "एसीटेड फिलामेंट धागे

से बने फिनोमेट धागे को छोड़कर मानव निर्मित सैलूलोजिक फिलामेंट धागा" शब्द रखे जायेंगे।

यह सार्वजनिक सूचना 1 जून 1981 को प्रकट हुई समझी जायेगी।

NO. DRAWBACK/PN-76/82

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/2729/82-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK-PN-37 dated the 26th April, 1982:—

In the column 'Description of goods' against sub-serial No. 2722 for words "viscose filament yarn" the words "man-made cellulosic filament yarn but excluding those made from acetate filament yarn" shall be substituted.

This public notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1981.

सं० प्रतिभवायगी/सां सू० 77/82

सार्वजनिक सूचना

का० सं० 600/2729/82-प्र० अ० :- सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिभवायगी नियमावली, 1971 के नियम 4 (विनांक 25 अगस्त, 1971 को भारत के राजपत्र-प्रसाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के अधीन केन्द्रीय सरकार एतद्वारा विनांक 1 जून, 1982 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिभवायगी/सां सू०-50 में प्रकाशित सारणी में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

"माल का विवरण" कॉलम में उपक्रमांक 2729 के सामने "सैलूलोजिक फिलामेंट धागा" शब्दों के स्थान पर एसीटेट फिलामेंट धागे से बने फिलामेंट धागे को छोड़कर मानव निर्मित सैलूलोजिक फिलामेंट धागा" शब्द रखे जायेंगे।

यह सार्वजनिक सूचना विनांक 1 जून, 1982 से प्रकट हुई समझी जायेगी।

NO. DRAWBACK/PN-77/82

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/2729/82-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971—(Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-50 dated the 1st June, 1982:—

In the column 'Description of goods' against sub-serial No. 2729 for the words "cellulosic filament yarn" the words "man made cellulosic filament yarn but excluding those made from acetate filament yarn" shall be substituted.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1981.

सं० प्रतिभवायगी/सां सू० 78/82 प्रतिभवायगी

सार्वजनिक सूचना

का० सं० 600/104/82-प्रतिभवायगी का० सं० 600/109/82 प्रतिभवायगी:-सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिभवायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र प्रसाधारण, विनांक 25 अगस्त,

1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70 प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिभवायगी/सां सू० 50 विनांक 1 जून, 1982 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उपक्रमांक 104, 105, 106, 107, और 109, के सामने स्तम्भ "प्रतिभवायगी की दर" और "विनिधान" में मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—

| उपक्रमांक प्रतिभवायगी की दर | विनिधान | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| | सीमाशुल्क उत्पादन | केन्द्रीय शुल्क |
| 104 वास्तविक धस्तर्वस्तु के प्रति क्विंटल पर 6.50 रु० (केवल छः रुपये पचास पैसे) | सम्पूर्ण उत्पादन | केन्द्रीय शुल्क |
| 105 वास्तविक धस्तर्वस्तु के प्रति क्विंटल पर 2.50 रु० (केवल दो रुपये पचास पैसे) | सम्पूर्ण उत्पादन | केन्द्रीय शुल्क |
| 106 फल उत्पाद आदेश 1955 में विनिर्दिष्ट पूर्ण श्वेण घुलनशील ठोस के न्यूनतम प्रतिशत धनुपात पर पूर्ण स्पेण घुलनशील ठोस के प्रति कि० घा० पर 0.50 रु० (केवल पचास पैसे) | सम्पूर्ण उत्पादन | केन्द्रीय शुल्क |
| 107 वास्तविक धस्तर्वस्तु के प्रति क्विंटल पर 9.00 रुपये (केवल नौ रुपये) | सम्पूर्ण शुल्क | केन्द्रीय उत्पादन 34.00 34.00 |
| 109 वास्तविक धस्तर्वस्तु के प्रति क्विंटल पर 68.00 रु० (केवल अड़सठ रुपये) | सम्पूर्ण शुल्क | केन्द्रीय उत्पादन 34.00 34.00 |

यह सार्वजनिक सूचना 1 नवम्बर, 1982 को लागू होगी।

NO. DRAWBACK/PN-78/82-DBK

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/104/82-DBK./F. No. 600/109/82-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-50, dated the 1st June, 1982:—

In the column 'Rate of drawback' and 'Allocation' against Sub-Sl. Nos. 104, 105, 106, 107 and 109 for the existing entries the following shall be substituted, namely:—

| Sub. Sl. No. | Rate of drawback | Allocation | |
|--------------|--|------------|-----------|
| | | Cus. | C. Excise |
| 104 | Rs. 6.50 (Rupees six and paise fifty only) per quintal of net contents. | All C. | Excise. |
| 105 | Rs. 2.50 (Rupees two and paise fifty only) per quintal of net content. | All C. | Excise. |
| 106 | Rs. 0.50 (Paise fifty only) per kg. of TSS on the minimum percentage of total soluble solid (TSS) specified in the Fruit Products Order, 1955. | All C. | Excise. |
| 107 | Rs. 9.00 (Rupees nine only) per quintal of net contents. | All C. | Excise. |
| 109 | Rs. 68.00 (Rupees sixty eight only) per quintal of net contents. | 34.00 | 34.00 |

This Public Notice shall come into force on the 1st day of November, 1982.

सं० प्रतिप्रदायगी/सां० सू० 79/82 प्रतिप्रदायगी

सार्वजनिक सूचना

का० सं० 600/502/82-प्रतिप्रदायगी.- सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियम, 1971 (भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सां० सू० 50, दिनांक 1 जून, 1982 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उपक्रमांक 502 के सामने कालम "प्रतिप्रदायगी की दर" में मौजूदा प्रतिशत के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:-

| उपक्रमांक | प्रतिप्रदायगी की दर |
|-----------|--|
| 502. | चोट पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 6 प्रतिशत (केवल छ प्रतिशत) |

यह सार्वजनिक सूचना 1 नवम्बर, 82 को लागू होगी।

जे० एस० आर० खाजिग, प्रवर सचिव

NO. DRAWBACK/PN-79/82-DBK

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/502/82-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India - Extraordinary, dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendment in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-50, dated the 1st June, 1982:—

In the column 'Rate of drawback' against sub-serial No. 502 for the existing entry, the following shall be substituted namely:—

| Sub. | Rate of drawback |
|---------|--|
| Sl. No. | |
| 502 | 6% (Six per cent only) of f.o. b. value. |

This Public Notice shall come into force on the 1st day of November, 1982.

J S.R. KHATHING, Under Secy.

